



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]
No. 351]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2007/चैत्र 12, 1929
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)
(पत्तन स्कंध)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

का.आ. 511(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (वर्ष, 1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 47क की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, श्री अरविन्द कुमार, सलाहकार, परिवहन अनुसंधान, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को, एतद्वारा पद का कार्य-भार ग्रहण किए जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, में से जो भी पहले हो, तब तक महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. पी आर-14019/12/2002-पीजी]
अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2007

S.O. 511(E).—In pursuance of clause (b) of Sub-section (4) of Section 47A of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Arvind Kumar, Adviser, Transport Research, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, as part-time Member in the Tariff Authority for Major Ports, for a period of two years with effect from the date of assumption of the charge of the post or until further orders, whichever event occurs earlier.

[F. No. PR-14019/12/2002-PG]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.